



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 24-08-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-08-24 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-08-25	2021-08-26	2021-08-27	2021-08-28	2021-08-29
वर्षा (मिमी)	35.0	25.0	75.0	75.0	30.0
अधिकतम तापमान(से.)	20.0	21.0	19.0	18.0	21.0
न्यूनतम तापमान(से.)	16.0	15.0	14.0	14.0	14.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	95	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	70	75	75	75
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	130	130	120	120	120
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	8	8	8	7

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में मध्यम से भारी वर्षा होने की सम्भावना है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 19.0 से 21.0 व 14.0 से 16.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 29 अगस्त से 4 सितम्बर के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से कम, अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है। चेतावनी: 24 से 28 अगस्त में कहीं-कहीं तेज बौछार के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने व पहाड़ों में कहीं-कहीं गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

कोरोना (कोविड-19) की दूसरी लहर व इसके गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि तैयार फसलों की कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अन्तराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखने पर विशेष ध्यान दें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल जिले के लिए एनडीवीआई 0.1-0.45 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम है तथा एसपीआई मानचित्र पिछले 4 हफ्तों से नैनीताल जिले में हल्की नमी की स्थिति दर्शाता है। किसान भाई समय पर मौसम पूर्वानुमान और जिलेवार कृषि मौसम परामर्श सलाह तथा आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर से मेघदूत व दामिनी मोबाईल एप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में मध्यम से भारी वर्षा होने की सम्भावना है। 24 से 28 अगस्त में कहीं-कहीं तेज बौछार के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने व पहाड़ों में कहीं-कहीं गरज के साथ बिजली गिरने की चेतावनी है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	सिंचित धान में बाली निकलने से पूर्व नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग एवं असिंचित धान (चेतकी/जेठी) में यूरिया के 2 प्रतिशत घोल का पर्णिय छिड़काव करें। आगामी दिनों में मधम से भारी वर्षा की सम्भावना को देखते हुए, रसायनो का छिड़काव मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।
मक्का	आगामी दिनों में वर्षा की सम्भावना को देखते हुए, मक्का की फसल में सिंचाई न करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	बैंगन की फसलों की अंतिम तुड़ाई के फलों को बाजार में बिक्री करें।
कद्दू	छप्पन कद्दू के तैयार फलों को बाजार में बिक्री करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	खुरपका एवं मुँहपका रोग से बचाव हेतु, यदि पशुओं में टीकाकरण नहीं करवाया है तो पशुचिकित्सक की सलाह से टीकाकरण करवाएं। खुरपका एवं मुँहपका रोग से पीड़ित जानवरों को एक अलग बाड़े में रखा जाना चाहिए ताकि वे स्वस्थ पशुओं को संक्रमित नहीं करें। यदि क्षेत्र में एफएमडी प्रचलित है, तो अपने जानवरों को संक्रमित पशुओं के संपर्क में न आने दें।